



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 11—जनवरी 17, 2009, शनिवार/पौष 21—पौष 27, 1930  
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 11—JANUARY 17, 2009, SATURDAY/PAUSA 21—PAUSA 27, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग  
आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2008

आ. अ. 2.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन 2007 में 50—मिर्जापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती सीमा परिहार, ककराही बाजार, गौरीगंज, दिबियापुर, औरैया, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्धन बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और जबकि अभ्यर्थी श्रीमती सीमा परिहार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्रीमती सीमा परिहार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत घोषित करता है;

[सं. 76/उ.प्र.-लोक.स./2007(उप)]

आदेश से,

बर्नाड जॉन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 8th December, 2008

O.N. 2.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Smt. Seema Parihar, Kakarahi Bazar, Gauriganj, Dibiyapur, Auraiya, Uttar Pradesh, a contesting candidate for the Bye Election to the House of the People, 2007 from-50 Mirjapur Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh has failed to lodge any account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and Rules and Order made thereunder; and

Whereas, Smt. Seema Parihar has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the said Smt. Seema Parihar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-HP/2007 (Bye)]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

आ. अ. 3.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब विधान सभा, 2007 के लिए साधारण निर्वाचन में जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; तथा

यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इस प्रकार निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है;

## सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	पंजाब विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन, 2007	54-रायकोट	श्री तिरलोचन सिंह, वी.पी.ओ. झोरधन, तहसील रायकोट, जिला-लुधियाना, पंजाब ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
2.	-वही-	58-लुधियाना पश्चिम,	प्रो. जगमोहन सिंह, 351-डी/100, ब्लाक-जे, भाई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना, पंजाब ।	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री कंवलजीत सिंह नरूला, 3808, प्रीतम नगर, मॉडल टाउन, लुधियाना, पंजाब ।	-वही-

1	2	3	4	5
4.	पंजाब विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन, 2007	117-सारदूलगढ़	श्री विनय प्रताप सिंह, ग्राम अबुल खुराना, तहसील मलौट, जिला- मुक्तसर, पंजाब ।	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।

[सं. 76/पंजाब-वि.स./2008(4)]

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th January, 2009

O.N. 3.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Punjab Legislative Assembly, 2007 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made thereunder; as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name and address of contesting candidates	Reasons for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Punjab Legislative Assembly, 2007	54-Raikot	Shri Tarlochan Singh, VPO Jhordhan, Tehsil Raikot, Distt. Ludhiana, Punjab	Failure to lodge account of election expenses.
2.	-do-	58-Ludhiana West	Prof. Jagmohan Singh, 351-D/100, Block-J, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana, Punjab	-do-
3.	-do-	-do-	Shri Kawaljit Singh Narula, 3808, Pritam Nagar, Model Town, Ludhiana, Punjab	-do-
4.	-do-	117-Sardulgarh	Shri Vinay Pratap Singh, Village Abul Khurana, Tehsil Malout, Distt. Mukatsar, Punjab.	-do-

[No. 76/PB-LA/2008 (4)]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.